



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 28, 1982/फाल्गुन 9, 1903

No. 72]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 28, 1982/PHALGUNA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1982

का० आ० 105(अ) —केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
नियंत्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ
और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेन्ट
नियंत्रण आदेश, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश करती है, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेन्ट नियंत्रण (तृतीय
संशोधन) आदेश, 1982 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1967 का (जिसमें इसमें इसके पश्चात्
त आदेश कहा गया है) खण्ड-2 के पश्चात् उप-खण्ड-1क अन्त
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“1 क लागू होता

उपर्युक्त आदेश में उपबन्ध खण्ड-9 क के प्रतिरिक्त केवल सेवी
सीमेन्ट के संबंध में ही लागू होंगे।

3 उपर्युक्त आदेश के खण्ड-2 में निम्नलिखित नया उपखण्ड अन्त
स्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

“(घ) नवी सीमेन्ट का अभिप्राय किसी सीमेन्ट संयंत्र की अधि-
ष्ठापित क्षमता के उस अंश के उत्पादन के लक्ष्य में है
जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सीमेन्ट संयंत्र की
अधिष्ठापित क्षमता का 66.6 प्रतिशत से अधिक न निर्धारित
किया जा सकता हो।”

“(ङ) नान-लेवी सीमेन्ट का अभिप्राय किसी सीमेन्ट संयंत्र के
उत्पादन के उस अंश से है जो उपर्युक्त उप-खण्ड (छ) में
उल्लिखित उत्पादन से अधिक हो।”

4 उपर्युक्त आदेश में खण्ड-8 निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित
किया जायेगा, अर्थात् —

“8. प्रत्येक उत्पादक स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी अन्य
व्यक्ति के द्वारा —

(क) बाटर प्रूफ (हाइड्रोफोबिक) सीमेन्ट 472.00 रु०
प्रति मीट्रिक टन की दर से।

(ख) जल्दी कड़ा हो जाने वाला सीमेन्ट तथा भिन्न ताप
वाला सीमेन्ट 463.00 रु० प्रति मीट्रिक टन की
दर से

(ख2) उच्च शक्ति वाला सामान्य पोर्टलैंड सीमेन्ट विशिष्ट सं० आई० एस०-8112-1976 के अनुरूप 463.00 प्रति मीट्रिक टन की दर से और प्रति वर्ग सेमी० या उसके अंश पर 100 किलोग्राम की कम्प्रेसिबल शक्ति होने पर 20 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त राशि।

(ग) सामान्य पोर्टलैंड सीमेन्ट तथा पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट 440.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से

(घ) पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट और चिनाई सीमेन्ट 425.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से।

गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निःशुल्क तथा उस पर उत्पादन शुल्क को भुगतान करके बेचेगा।

बशर्ते कि पैक किये हुए सीमेन्ट के मामले में इस खण्ड में निर्दिष्ट वह मूल्य भी जोड़ा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जूट के बोरो अथवा अन्य कन्टेनरों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये हों तथा इसमें नये और काम में आने वाले जूट के पुराने बोरो तथा इस प्रकार के अन्य कन्टेनरों का प्रयोग करने के लिए निर्दिष्ट प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

यह और भी कि जूट के बोरो में पैकिंग करने के मामले में निर्माता काम में लाये जाने योग्य पुराने बोरो का केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक इस्तेमाल नहीं करेगा।

यह भी कि केन्द्रीय सरकार संभरण तथा निपटान महा निदेशक के माध्यम से अथवा भारत से बाहर निर्यात करने के लिये बेची जाने वाली सीमेन्ट के मूल्य में छूट कटौती या कमीशन की अनुमति भी दे सकती है।

बशर्ते कि यह भी कि इस खण्ड का कुछ भी मिनरी सीमेन्ट संयंत्र में निर्मित सीमेन्ट पर लागू नहीं होगा।

5. उपर्युक्त आदेश में खण्ड-8 में व्याख्या सं०-2 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जा सकती है, अर्थात्:—

“व्याख्या 2—शंकाओं के निवारण के लिये एतद्वारा घोषणा की जाती है कि उप-खण्ड (ग) में उल्लिखित “सामान्य पोर्टलैंड सीमेन्ट” में सफेद सीमेन्ट से अथवा निर्मित रंगीन सीमेन्ट सम्मिलित है।”

6. खण्ड-9, उप-खण्ड (2) को निम्नलिखित उप-खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ii) विनाय तथा वितरण व्यय जिनकी गणना 4.00 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से की गई है।”

7. उपर्युक्त आदेश में खण्ड-9 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित परस्फुट रखा जायेगा, अर्थात्:—

बशर्ते कि निर्माता द्वारा सबसे सस्ते परिवहन मार्ग के द्वारा दिये गये भाड़े अथवा किसी अन्य ऐसे परिवहन द्वारा जिसका उल्लेख केन्द्रीय सरकार द्वारा उपखण्ड (4) में किया गया हो, इस प्रकार के सौदों के लिये किसी भी ऐसे प्रकार के परिवहन के सम्बन्ध में किये गये भाड़े की प्रतिपूर्ति नियंत्रक द्वारा सीमेन्ट विनियमन लेखों में से जैसा कि खण्ड-II में उल्लिखित है, निर्माता को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

8. उपर्युक्त आदेश में खण्ड-9 के पश्चात् खण्ड-9क के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात्:—

“9क. प्रत्येक निर्माता नाम-लेबी सीमेन्ट के उत्पादन के सम्बन्ध में जिस महीने इस प्रकार का उत्पादन होता है, उस मास की समाप्ति के एक महीने के अन्दर उस उत्पादन के 9.00 रुपये

प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमेन्ट विनियमन लेखों में गांथि का भुगतान करेगा।”

9. उपर्युक्त आदेश में खण्ड-II में उप-खण्ड-I में “खण्ड-9” के अन्तर्गत शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे:

“खण्ड-9 और खण्ड-9क”

10. उपर्युक्त आदेश में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र० सं०	निर्माता का नाम	कारखाने से चलते समय का मूल्य प्रति मीट्रिक टन (रुपयों में)
1.	गभी निर्माता	(1) सामान्य पोर्टलैंड सीमेन्ट तथा पोर्टलैंड स्लेग सीमेन्ट 335.00 रु० (2) पोर्टलैंड पोजलाना तथा चिनाई सीमेन्ट 320.00 रु०

टिप्पण:—

(1) गीघ्र सञ्चय होने वाले सीमेन्ट तथा निम्न ताप वाले सीमेन्ट के मामले में 12.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त मूल्य और वाटर प्रूफ (वाटरप्रूफिंग) सीमेन्ट के मामले में उल्लिखित उपर्युक्त मूल्यों में 21.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जाएगा।

(1क) ऐसी उच्च शक्ति वाले माध्याम पोर्टलैंड सीमेन्ट की दशा में जो विनिर्देश सं० आई० एस०-8118-1976 के अनुरूप हों, 12.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त कीमत, में विनिर्दिष्ट कीमत के साथ जोड़ी जा सकेगी। 100 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी० या उसके भाग को सम्पीडन शक्ति में प्रत्येक वृद्धि के लिए 20.00 रु० प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त रकम भी उस दशा में जोड़ी जा सकेगी जब उक्त विनिर्देश पर संपीडन शक्ति में ऐसी कोई वृद्धि होती है।

(2) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ओकाजन एकक और मावमुलुन बैरी सीमेन्ट लिमिटेड, चेरापूजी तथा सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया राजबन सीमेन्ट वर्क्स अनुसूची में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त क्रमशः 114.34 रु० 79.10 रु० तथा 142.96 रु० प्रति मीट्रिक टन के अतिरिक्त साधारण मूल्य पाने के पात्र होंगे।

[फा० सं० 1-42/81-सीमेन्ट]

रविकुण्ड विक्रम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1982

S.O. 105(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G and Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (i) This Order may be called the “Cement Control (3rd Amendment) Order, 1982.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Cement Control Order, 1967 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 1, a new clause 1A shall be inserted, namely :—

“1A. **APPLICABILITY.**—The provisions of the said Order except clause 9A thereof shall apply only in relation to levy cement.”

3. In the said Order, in clause 2, the following shall be inserted as new sub-clauses, namely :—

“(d) **Levy cement**, means that part of production of cement with reference to the installed capacity of a cement plant as may be determined by the Central Government, from time to time, not being more than 66.6 per cent of the installed capacity of the cement plant.”

“(e) **Non-levy cement** means that part of production of a cement plant which is in excess of the production mentioned in sub-clause (d).”

4. In the said Order clause 8 shall be substituted by the following clause, namely :—

“8. Every producer shall, himself, or by any person on his behalf, sell :—

(a) water proof (hydrophobic) cement at Rs. 472.00 per metric tonne.

(b) rapid hardening cement and low heat cement at Rs. 463.00 metric tonne.

(b)(1) high strength ordinary portland cement conforming to specification No. IS-8112-1976 at Rs. 463.00 per metric tonne and additional amount of Rs. 20 per metric tonne for every increase in the compressive strength of 100 kg. per sq. cm or part thereof.

(c) ordinary portland cement and portland slag cement at Rs. 440.00 per metric tonne.

(d) portland pozzolana cement and masonry cement at Rs. 425.00 per metric tonne.

free on rail destination railway station plus the excise duty paid thereon :

Provided that in the case of packed cement there shall be added to the price referred to in this clause such charges as may be fixed by the Central Government in respect of packing in jute bags or in any other containers, and different charges may be fixed for the use of new and serviceable secondhand jute bags and for the use of such other containers.

Provided further that in the case of packing of cement in jute bags the producer shall not use serviceable secondhand jute bags in excess of the limit specified by the Central Government from time to time.

Provided also that the Central Government may allow rebate, discount or commission in the price of cement sold to the Government through the Directorate General of Supplies and Disposals or intended for export out of India.

Provided further that nothing in this clause shall apply to cement produced in a mini cement plant.”

5. In the said Order, in clause 8 explanation No. II may be substituted by the following, namely :—

“Explanation II.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “ordinary portland cement” referred to in sub-clause (c) includes coloured cement made otherwise than from white cement.”

6. In clause 9 sub-clause (ii) may be substituted by the following sub-clause, namely :—

“(ii) selling and distribution expenses calculated at the rate of Rs. 4.00 per tonne.”

7. In the said Order under clause 9 of the existing provisions shall be substituted by the following proviso, namely :—

“Provided that the expenditure incurred by the producer on freight by the cheapest mode of transport or where any other mode of transport has been specified by the Central Government under clause (4), by such mode of transport in respect of such transactions shall be reimbursed to the producer by the Controller from out of the Cement Regulation Account referred to in Clause 11.”

8. In the said Order, after clause 9, the following shall be inserted as clause 9A, namely :—

“9A. Every producer shall, in respect of the production of non-levy cement, pay to the Cement Regulation Account an amount at the rate of Rupees nine per metric tonne of such production, within one month of the close of the month in which such production takes place.”

9. In the said Order, in clause 11, the following words shall be substituted for the words “under clause 9”, appearing in sub-clause (i) namely :—

“under Clauses 9 and 9A.”

10. In the said Order schedule may be substituted by the following schedule, namely :—

SCHEDULE

S.N.	Name of the producer	Ex-factory price for metric tonne. (in rupees)
1.	All producers	(i) Ordinary portland cement and portland slag cement Rs. 335.00 (ii) Portland pozzolana and masonry cement. Rs. 320.00

1. All producers

(i) Ordinary portland cement and portland slag cement
Rs. 335.00

(ii) Portland pozzolana and masonry cement. Rs. 320.00

Note :

(1) In the case of rapid hardening cement and low heat cement an additional price of Rs. 12 per tonne and in the case of water proof (hydrophobic) cement, an additional price of Rs. 21 per tonne may be added to the price specified above.

(1)(a) In the case of High strength ordinary portland cement conforming to specification No. IS : 8118 : 1976 an additional price of Rs. 12 per metric tonne may be added and an additional amount of Rs. 20 per metric tonne for every increase in the compressive strength of 100 kg. per sq. cm. or part thereof may also be added wherever there is such an increase in the compressive strength over the said specification.

(2) Cement Corporation of India, Bokajan unit, Mawmuluch Cherra Cement Limited Cherrapunji and Cement Corporation of India, Rajaban cement works will be eligible in addition to the price given in the schedule to an additional retention price of Rs. 114.34, Rs. 79.10 and Rs. 142.96 per metric tonne respectively.

[File No. 1-42/81-Cem.]

R. K. TIKKU, Jt. Secy.

